

Model Question Paper (2026-27)

ECONOMICS(CLASS XII)

(अर्थशास्त्र— कक्षा XII)

Time Allowed: 3 Hours (समय : 3 घंटे)

Maximum Marks: 80 (पूर्णांक : 80 अंक)

General Instruction(सामान्य निर्देश):-

- Candidates are required to give answers in their own words as far as Practicable)
उत्तर यथासंभव अपने शब्दों में लिखें।
- Marks allotted to each questions are indicated against it
प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने अंकित हैं।
- All Question are Compulsory.
सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

Special Instruction (विशेष निर्देश):-

- You must write the questions paper series in the series box given on the left side of the title pages of Answer Book and in the Series column of the OMR sheet , and darked the corresponding bubble.
अपनी उत्तर –पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ के बाईं ओर दिए गए सीरीज बॉक्स व OMR में दिये गए सीरीज कॉलम में प्रश्न पत्र सीरीज अवश्य लिखें और सम्बन्धित गोले को भरें ।
- While Answering your questions , you must indicate on your answer book the same quesons number appears in your question paper.
प्रश्नों के उत्तर देते समय जो प्रश्न- पत्र पर दर्शाई गई है उत्तर पुस्तिका पर वही प्रश्न संख्या लिखना अनिवार्य है ।
- Do not leave blank page/pages in your answer-book
अपनी उत्तर पुस्तिका में खाली पन्ना /पन्ने न छोड़िए ।
- The marks for each question are given in front of it . All questions are compulsory.
प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिए गए हैं । सभी प्रश्न अनिवार्य हैं
- Multiple –Choice Questions of Part-A are to be answer on the OMR Sheet of the Answer Book only
भाग क के बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर केवल उत्तर पुस्तिका की OMR Sheet पर देने होंगे

SECTION A: MCQ (1 × 16 = 16 Marks)

भाग – A बहुविकल्पीय प्रश्न (1 × 16 = 16 अंक)

- Q1. Who defined Economics as "a science of wealth"?
(A) Alfred Marshall (B) Lionel Robbins (C) Adam Smith (D) J.M. Keynes
अर्थशास्त्र को "धन का विज्ञान" किसने कहा है?
(क) अल्फ्रेड मार्शल (ख) लायनल रॉबिन्स (ग) एडम स्मिथ (घ) जे. एम. कीन्स
- Q2. Cardinal measurement of utility was advocated by:
(A) J.R. Hicks (B) Alfred Marshall (C) Paul Samuelson (D) J.M. Keynes
उपयोगिता के गणनावाचक (Cardinal) मापन का समर्थन किसने किया?
(क) जे. आर. हिक्स (ख) अल्फ्रेड मार्शल (ग) पॉल सैमुएलसन (घ) जे. एम. कीन्स

- Q3. The demand curve for Giffen goods slopes:**
 (A) Downward to the right (B) Upward to the right (C) Horizontal (D) Vertical
 गिफेन वस्तुओं की मांग वक्र कैसी होती है?
 (क) दाईं ओर नीचे की ओर ढलान वाली (ख) दाईं ओर ऊपर की ओर ढलान वाली
 (ग) क्षैतिज (घ) ऊर्ध्वाधर
- Q4. If price elasticity of demand is greater than one, a fall in price will lead to:**
 (A) Fall in Total Revenue (B) Rise in Total Revenue
 (C) No change in Total Revenue (D) Zero Total Revenue
 यदि मांग की मूल्य लोच एक से अधिक हो, तो मूल्य में कमी होने पर:
 (क) कुल आय में कमी होगी (ख) कुल आय में वृद्धि होगी
 (ग) कुल आय में कोई परिवर्तन नहीं होगा (घ) कुल आय शून्य हो जाएगी
- Q5. Which cost is zero when output is zero in the short run?**
 (A) Total Fixed Cost (B) Total Variable Cost
 (C) Total Cost (D) Marginal Cost
 अल्पकाल में उत्पादन शून्य होने पर कौन-सी लागत शून्य होती है?
 (क) कुल स्थिर लागत (ख) कुल परिवर्तनशील लागत
 (ग) कुल लागत (घ) सीमांत लागत
- Q6. Under Perfect Competition , which of the following is correct?**
 (A) $AR = MR$ (B) $AR > MR$
 (C) $AR < MR$ (D) AR and MR have no relation
 पूर्ण प्रतियोगिता में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
 (क) $AR = MR$ (ख) $AR > MR$
 (ग) $AR < MR$ (घ) AR और MR का कोई संबंध नहीं
- Q7. Formula for GDP Deflator is:**
 (A) $NNP_{fc} = (NNP_{cp} / \text{Price Index of Current Year}) \times 100$
 (B) $NNP_{fc} = (\text{Price Index of Current Year} / NNP_{cp}) \times 100$
 (C) $NNP_{fc} = (NNP_{cp} \times \text{Price Index of Current Year}) \times 100$
 (D) None of the above
 GDP डिफ्लेटर का सूत्र क्या है?
 (क) $NNP_{fc} = (NNP_{cp} / \text{मूल्य सूचकांक}) \times 100$ (ख) $NNP_{fc} = (\text{मूल्य सूचकांक} / NNP_{cp}) \times 100$
 (ग) $NNP_{fc} = (NNP_{cp} \times \text{मूल्य सूचकांक}) \times 100$ (घ) उपरोक्त में से कोई नहीं
- Q8. If the consumption function is $C = 50 + 0.75Y$, the value of MPS is:**
 (A) 0.25 (B) 0.75 (C) 50 (D) 1
 यदि उपभोग फलन $C = 50 + 0.75Y$ है, तो MPS का मान होगा:
 (क) 0.25 (ख) 0.75 (ग) 50 (घ) 1
- Q9. If the consumption function is $C = 50 + 0.75Y$, the value of MPC is:**
 (A) 0.25 (B) 0.75 (C) 50 (D) 1

यदि उपभोग फलन $C = 50 + 0.75Y$ है, तो MPC का मान होगा:

- (क) 0.25 (ख) 0.75 (ग) 50 (घ) 1

Q10. An increase in Bank Rate by the RBI will:

- (A) Increase credit creation (B) Decrease credit creation
(C) Have no effect on credit (D) First increase then decrease credit

RBI द्वारा बैंक दर में वृद्धि करने पर:

- (क) साख सृजन बढ़ेगा (ख) साख सृजन घटेगा
(ग) कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा (घ) पहले बढ़ेगा फिर घटेगा

Q11. Which of the following is an invisible item in the Balance of Payments?

- (A) Import of machinery (B) Receipts from foreign tourists
(C) Export of gold (D) Import of crude oil

भुगतान संतुलन में निम्न में से कौन-सी अदृश्य मद है?

- (क) मशीनों का आयात (ख) विदेशी पर्यटकों से प्राप्तियाँ
(ग) सोने का निर्यात (घ) कच्चे तेल का आयात

Q12. One Rupee Note is printed in India by _____

- (A) Finance Ministry (B) P.N.B.
(C) R.B.I. (D) S.B.I.

भारत में एक रुपये का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है?

- (क) वित्त मंत्रालय (ख) पंजाब नेशनल बैंक
(ग) भारतीय रिजर्व बैंक (घ) भारतीय स्टेट बैंक

Q13. MPC+MPS= _____

- (A) 1 (B) 0 (C) -1 (D) None of Above .

$MPC + MPS =$

- (क) 1 (ख) 0 (ग) -1 (घ) इनमें से कोई नहीं

Q14. Trade Balance is _____

- (A) Import – Export (B) Export - Import
(C) Export + Import (D) None of Above

व्यापार संतुलन (Trade Balance) है:

- (क) आयात – निर्यात (ख) निर्यात – आयात
(ग) निर्यात + आयात (घ) इनमें से कोई नहीं

Q15. Fiscal Deficit

- (A) Total Expenditure –(Revenue Reciept+Capital Receipt)
(B) Total Expenditure –(Revenue Reciept+Capital Receipt(Except borrowing))
(C) Total Expenditure –Total Receipt
(D) None of the above

राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) है:

- (क) कुल व्यय – (राजस्व प्राप्तियाँ + पूंजीगत प्राप्तियाँ)
- (ख) कुल व्यय – (राजस्व प्राप्तियाँ + उधार को छोड़कर पूंजीगत प्राप्तियाँ)
- (ग) कुल व्यय – कुल प्राप्तियाँ
- (घ) इनमें से कोई नहीं

Q16. Assertion (A): NNP at Factor Cost is known as National Income.

Reason (R): NNP at Factor Cost includes Net Factor Income from Abroad.

- (A) Both A and R are true and R is the correct explanation of A
- (B) Both A and R are true but R is not the correct explanation of A
- (C) A is true but R is false
- (D) A is false but R is true

कथन (A): साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (NNP_{fc}) को राष्ट्रीय आय कहते हैं।

कारण (R): NNP_{fc} में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय शामिल होती है।

- (क) A और R दोनों सत्य हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
- (ख) A और R दोनों सत्य हैं, परन्तु R, A की सही व्याख्या नहीं है।
- (ग) A सत्य है, R असत्य है।
- (घ) A असत्य है, R सत्य है।

SECTION B: (Micro Economics)

Q17 What do you mean by Perfect Competition Market? Explain it Four characteristics
पूर्ण प्रतियोगिता बाजार से क्या अभिप्राय है? इसकी चार विशेषताओं की व्याख्या कीजिए।

4

Or (अथवा)

Explain increase and decrease in demand with help of diagram.,
मांग में वृद्धि एवं मांग में कमी को चित्र सहित समझाइए।

Q18 Attempt any two questions :

2X5=10

I) How we can measure of elasticity with help expenditure method. Explain with help of diagram.

व्यय विधि की मदद से हम लोच को कैसे माप सकते हैं? इसे डायग्राम की मदद से समझाएं।

II) What is meant by returns to scale ? Explain the increasing returns to scale with the help of diagram?

पैमाने के प्रतिफल (Returns to Scale) से क्या अभिप्राय है? बढ़ते प्रतिफल को चित्र सहित समझाइए।

III) Explain with diagram the impact on equilibrium price when demand remains constant but supply for a commodity changes .

जब मांग स्थिर रहे तथा पूर्ति में परिवर्तन हो, तो संतुलन मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? चित्र सहित स्पष्ट कीजिए।

Q 19. Attempt any three questions:**3X2=6**

I) What is meant by consumer's Equilibrium ? How consumer equilibrium is attained in case of one good?

उपभोक्ता संतुलन क्या है? एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन कैसे प्राप्त करता है?

II) Distinguish between AC and MC . How AC and MC help in determined equilibrium level of out ? . show with diagram.

AC और MC के बीच अंतर बताइए। AC और MC आउटपुट के संतुलन स्तर को तय करने में कैसे मदद करते हैं? इसे डायग्राम के साथ दिखाइए।

III) Distinguish between returns to factor and returns to scale?

साधन प्रतिफल (Returns to Factor) तथा पैमाने के प्रतिफल (Returns to Scale) में अंतर बताइए।

Iv) if price of milk remains constant demand milk rise 4 kg to 5 kg whether it is expansion in demand or increase in demand explain you concept with substantive with a suitable example .

यदि दूध का मूल्य स्थिर रहे तथा उसकी मांग 4 किलोग्राम से बढ़कर 5 किलोग्राम हो जाए, तो यह मांग का विस्तार है या मांग में वृद्धि? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए।

Q20. Attempt any four questions**4 × 3 = 12**

(I) Define Production Possibility Curve .What are main characteristics.

उत्पादन संभावना वक्र (PPC) की परिभाषा दीजिए तथा इसकी मुख्य विशेषताएँ लिखिए

(II) Calculate the Price Elasticity of demand :

The price of commodity X falls by 10% and its quantity demanded rises by 20%.

Calculate price elasticity of demand and comment on the nature of the commodity.

मांग की मूल्य लोच ज्ञात कीजिए: किसी वस्तु का मूल्य 10% घटता है तथा उसकी मांग 20% बढ़ जाती है।

III)

Units of Output (उत्पादन की ईकाइयाँ)	TC कुल लागत	TFC कुल स्थिर लागत	MC सिमांत लागत	AC औसत लागत
0	10			
1	20			
2	30			
3	40			

IV) What is effect of Ceiling Price ? Explain with diagram.

अधिकतम मूल्य (Ceiling Price) का प्रभाव चित्र सहित समझाइए।

V) Match the Following मिलान कीजिए:

	Column-I	Column-II
1	TR	$\Delta TR / \Delta Q$
2	MR	PXQ
3	AR	TR/Q

SECTION -C
(Macro Economics)

Q21. What is Meant by Barter System of Exchange? What are the drawbacks of Barter System.

वस्तु विनिमय प्रणाली से क्या अभिप्राय है? इसकी प्रमुख कमियों का वर्णन कीजिए।

4

Or

Explain the concept of deficit budget. Write its merits and demerits

घाटे के बजट की अवधारणा स्पष्ट कीजिए तथा इसके गुण एवं दोष लिखिए।

Q22. Attempt Any two Questions कोई दो करें

2X5=10

(I) Explain in details the income method to measure the National Income measured .

राष्ट्रीय आय मापन की आय विधि का विस्तार से वर्णन कीजिए।

(II) Given Consumption Function $C = 100 + 0.75Y$ where C = Consumption Expenditure and Y = National Income and Investment Expenditure is 1000 Cr Calculate : (i) Equilibrium Level of National Income (ii) Consumption expenditure at equilibrium level of Income .

उपभोग फलन $C = 100 + 0.75Y$ तथा निवेश व्यय = 1000 करोड़ है।

(i) संतुलन राष्ट्रीय आय ज्ञात कीजिए।

(ii) संतुलन आय स्तर पर उपभोग व्यय ज्ञात कीजिए।

(III) Explain the qualitative and quantitative function of R.B.I. to control credit in economy

अर्थव्यवस्था में साख नियंत्रण हेतु RBI के गुणात्मक एवं मात्रात्मक उपायों की व्याख्या कीजिए।

Q23 Attempt Any three Questions कोई तीन करें

3X2=6

If Income is 1000 crore and consumption 400 crore Find out the Average Propensity to save (APS)

यदि आय 1000 करोड़ तथा उपभोग 400 करोड़ है, तो औसत बचत प्रवृत्ति (APS) ज्ञात कीजिए।

(II) Explain the regressive tax

प्रतिगामी कर (Regressive Tax) की व्याख्या कीजिए।

(III) What is meant by Capital Account of the payment ? Explain it

भुगतान संतुलन के पूंजी खाते (Capital Account) का अर्थ समझाइए।

(IV) Calculate the Fiscal Deficit from the following data

निम्न आँकड़ों से राजकोषीय घाटा ज्ञात कीजिए।

Items मर्दे	Crores करोड़ रुपये
Revenue Receipt राजस्व प्राप्तरयाँ	1423563
Revenue Expenditure राजस्व व्यय	1734561
Capital Receipt पूंजीगत प्राप्तरयाँ	590845
Capital Expenditure पूंजीगत व्यय	279847
Recoveries of loan and other receipt ऋण वसूली एवं अन्य प्राप्तरयाँ	56571

24. Attempt Any Four Questions कोई चार करें

4x3=12

I) From the following data, calculate NNP at Market Price:

निम्न आँकड़ों से बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (NNP_{mp}) ज्ञात कीजिए:

GDP at MP = Rs 5000 Crore, Depreciation ह्रास = Rs 400 Crore, Net Factor

Income from Abroad विदेशों से शुद्ध साधन आय = (-) Rs 100 Crore, Net Indirect

Taxes शुद्ध अप्रत्यक्ष कर = Rs 300 Crore

II) Distinguish between Direct Tax and Indirect Tax

प्रत्यक्ष कर तथा अप्रत्यक्ष कर में अंतर स्पष्ट कीजिए।

III) Explain the main objectives of budget

बजट के प्रमुख उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए।

IV) Distinguish between Spot Market and Forward Market

हाजिर बाजार (Spot Market) तथा वायदा बाजार (Forward Market) में अंतर बताइए।

V) Match the following मिलान कीजिए:

	Column-I स्तम्भ-I	Column-II स्तम्भ-II
1	APC+APS	$\Delta C/\Delta Y$
2	K	1
3	MPC	$1/1-MPC$

**Format of Design
Question Paper/ Test**

Subject: Economics
Class: 12th

Marks: 80
Time: 3 hrs

Weightage to Objective

Objective	Knowledge	Understand	Application	Analyse	Evaluation	Creation	Total
Percentage of Marks	18.75	33.75	20	27.5	-	-	100%
Marks	15	27	16	22	-	-	80

Weightage to form of question:

Forms of Questions	E/LA	SA	VSA	O(MCQ)	Total
No. of Questions	06	08	06	16	36
Marks allotted	28	24	12	16	80
Estimated time					

Weightage to Major Content Areas:

S. No	Unit/ Sub-Units	Marks
<u>Introductory Micro Economics</u>		
1.	Chapter-1: Introduction (Micro & Macro)	04
2.	Chapter-2: Theory of consumer behaviour	13 + 07 (Extra)
3.	Chapter-3: Production and costs	06 + 07 (Extra)
4.	Chapter-4: The theory of the firm under perfect competition	09
5.	Chapter- 5: Market equilibrium	08
<u>Introductory Macro Economics</u>		
6.	Chapter-2: national income accounting	12 + 02 (Extra)
7.	Chapter-3: money and banking	06
8.	Chapter-4: determination of income and employment	10
9.	Chapter-5 : government budget and the economy	05 + 07 (Extra)
10.	Chapter-6: Open Economy Macroeconomics	07
	Total	80 + 23 (Extra)

Schemes of Sections	Three Sections A, B & C
Pattern of Option	Internal E 'External Both

Index of Abbreviations:

(E/LA : Essay/ Long Answer ; SA : Short Answer ; VSA : Very Short Answer ; O : Objective)

FORMAT OF BLUEPRINT

Subject : Economics

Unit/ Paper : Annual

Max Marks : 80

Class : 12th

Time : 3 Hrs

S. No	Objective	Knowledge				Understanding				Application				Analysis				Total Row Wise
	Form of Questions																	
	Content unit Sub unit/Marks	E/LA 4/5	SA 3	VSA 2	O 1	E/LA 4/5	SA 3	VSA 2	O 1	E/LA 4/5	SA 3	VSA 2	O 1	E/LA 4/5	SA 3	VSA 2	O 1	
1	Chapter-1: Introduction (Micro & Macro)	-	-	-	1	-	1+(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Chapter-2:Theory of consumer behaviour	-	-	-	-	1	-	1	4	-	1	-	-	1	-	-	-	
3	Chapter-3: Production and costs	-	-	-	1	(1)	(1)	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
4	Chapter-4: The theory of the firm under perfect competition	-	1	-	1	(1)	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Chapter- 5: Market equilibrium	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
6	Chapter-2: national income accounting	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	1	-	-	-	1	1	
7	Chapter-3: money and banking	-	-	-	2	(2)	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Chapter-4: determination of income and employment	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
9	Chapter-5 : government budget and the economy	-	-	-	1	-	-	(1)	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
10	Chapter-6:Open Economy Macroeconomics	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Sub Total	-	2	-	7	2	2	3	7	1	3	1	-	3	1	2	2	
	Marks	-	6	-	7	10	6	6	7	5	9	2	-	13	3	4	2	Marks (QS) 80
	Total Column Wise	B 13 (Marks Total)				B 29 (Marks Total)				B 16 (Marks Total)				B 22 (Marks Total)				A 80

Notes: (Marks) (within the bracket) This shows extra questions (Not counted in marks)

Summary:-	Essay (E)/ CBQ	No.	<u>06</u>	Marks	<u>28</u>
	Short Answer (SA)	No.	<u>08</u>	Marks	<u>24</u>
	Very Short Answer (VSA)	No.	<u>06</u>	Marks	<u>12</u>
	Objective (O)	No.	<u>16</u>	Marks	<u>16</u>

Pattern of Options : Internal E External

Scheme of Sections :- A, B, & C